

Punjab & Sind Bank
A Govt. of India Undertaking

**ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ**
भारत सरकार का उपक्रम

POSSESSION NOTICE

ZONAL OFFICE: First Floor, Satguru Tower, CP47A, Sector-E, Jankipuram, Lucknow

Whereas, The undersigned being the Authorized Officer of the Punjab & Sind Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(2) read with the Rule 3 of the Security Interest [Enforcement] Rules, 2002 issued Demand Notice calling upon the borrowers detailed below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of the said notice.

The borrowers having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrowers, Guarantors and the public in general that the undersigned has taken symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the said rules on the date as mentioned below.

The borrowers in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the mentioned properties and any dealings with the mentioned properties will be subject to the charge of the Punjab & Sind Bank for the amount/liability and interest thereon due from the borrowers as mentioned below. The borrower's attention is invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the act in respect of time available to redeem the secured asset.

Sl. No.	Name of Borrowers & Guarantors	Amount Claimed in Notice	Description of the Immovable Property	Date of Demand Notice Date of Symbolic Possession
BRANCH: Gaderian Purwa, Kanpur				
1	Borrower: Mr. Govind Agnihotri S/o Mr. Ramakant Agnihotri, R/o House No. 117/N/110, Tulsī Nagar, Kanpur, U.P. 208025. Co-Borrower: 1. Mrs. Laxmi Agnihotri W/o Mr. Govind Agnihotri, R/o House No. 117/N/110, Tulsī Nagar, Kanpur, U.P. 208025. 2. Mr. Gaurav Agnihotri S/o Mr. Ramakant Agnihotri, R/o House No. 117/N/110, Tulsī Nagar, Kanpur, U.P. 208025. Guarantor: Mr. Atul Singh Chauhan S/o Mr. Ram Nareish Singh Chauhan, R/o House No. 117/N/886, Tulsī Nagar, Kanpur-208025.	₹ 70,23,971.73 as on 31.10.2021 + Interest & other expenses w.e.f. 01.11.2021	All that part and parcel of the property consisting of House No. (New)117/N/116, Tulsī Nagar, Kakadeo Kanpur and House No. (Old) 117/857, N Block, Tulsī Nagar, Kakadeo Kanpur and House No. Part of 117/N/135, and Arazī 857 Meter, Area (A): 111.18, Area (B): 64.48 Sq.Mt., Owner: Mr. Govind Agnihotri S/o Mr. Ramakant Agnihotri, Boundaries (A): East: House No. 117/N/100 West: House No. 117/N/117 North: 12.19 Meter Road South: House No. 117/N/858. (B): East: Part of House No. 117/N/135 West: House No. 117/N/135 North: House No. 117/N/136 South: 7.62 Meter Road.	11.11.2021 27.05.2022
Date: 31.05.2022, Place: Kanpur				

Authorised Officer, PUNJAB & SIND BANK

EMERGENT INDUSTRIAL SOLUTIONS LIMITED
(FORMERLY EMERGENT GLOBAL EDU & SERVICES LIMITED) CIN L80902DL1983PLC209722
Regd. Office: 8-B, 'Sagar', 6, Tilak Marg, New Delhi – 110 001
Phones: (91) (11) 2378 2022, 2338 2592; Fax: (91) (11) 2378 2806, 23381914; Email: cs@emergingroup.com; website:www.eesi.in

Extract of Statement of Standalone & Consolidated Audited Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March 2022
(Rs. in Lacs Except Number of Shares & EPS)

Particulars	Standalone						Consolidated					
	Quarter Ended			Year Ended			Quarter Ended			Year Ended		
	31 st Mar 2022	31 st Dec 2021	31 st Mar 2021	31 st Mar 2022	31 st Mar 2021	31 st Mar 2022	31 st Mar 2022	31 st Mar 2021	31 st Mar 2022	31 st Mar 2021	31 st Mar 2022	
	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	Audited	
1 Total Revenue	3,430.68	344.66	11,791.26	10,810.56	51,916.48	3,427.38	341.29	11,788.12	10,797.19	51,903.84		
2 Profit/Loss for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	16.93	1.44	58.96	199.10	576.97	13.49	(2.05)	55.45	185.09	563.41		
3 Profit/Loss for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	16.93	1.44	58.96	199.10	576.97	13.49	(2.05)	55.45	185.09	563.41		
4 Profit (+)/Loss(-) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	9.90	1.32	39.99	147.59	429.33	6.83	(1.61)	37.24	135.63	417.99		
5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	8.15	1.32	43.53	145.84	431.92	5.08	(1.61)	40.78	133.88	420.58		
6 Paid Up Equity Share Capital (Face Value Rs. 10/- Per Share)	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90		
7 Other Equity excluding Revaluation Reserves, as per Balance Sheet of Previous Accounting Year	-	-	-	1,769.44	1,623.60	-	-	1,629.71	1,495.82			
8 Earning Per Share (Before Extraordinary Items) (Not Annualised)												
(A) Basic	0.22	0.03	0.88	3.23	9.40	0.15	(0.04)	0.82	2.97	9.15		
(B) Diluted	0.22	0.03	0.88	3.23	9.40	0.15	(0.04)	0.82	2.97	9.15		
9 Earning Per Share (After Extraordinary Items) (Not Annualised)												
(A) Basic	0.22	0.03	0.88	3.23	9.40	0.15	(0.04)	0.82	2.97	9.15		
(B) Diluted	0.22	0.03	0.88	3.23	9.40	0.15	(0.04)	0.82	2.97	9.15		

Note: The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2022 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015. The Full format of the Standalone and consolidated Financial Results are available on the Stock Exchange Website www.bseindia.com and on the Company's website www.eesi.in.

By order of the Board
Sd/-
R.C. KHANDURI
(DIRECTOR)
DIN : 03048392

Place : New Delhi
Date : 30.05.2022

NALWA SONS INVESTMENTS LIMITED
CIN: L65993DL1970PLC146414
Regd. Office : 28, Najafgarh Road, Moti Nagar Industrial Area, New Delhi – 110 015
Ph. No.: (011) 45021854, 45021812, Fax : (011) 25928118, 45021982,
Email Id.: investorcare@nalwasons.com, Website: www.nalwasons.com
Branch Office : O.P. Jindal Marg, Hisar- 125005, Haryana

EXTRACT OF AUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022
(Rs. in lakhs, except per share data)

Sr. No.	Particulars	Standalone				Consolidated			
		For the quarter ended		For the year ended		For the quarter ended		For the year ended	
		31st March 2022	31st March 2021	31st March 2022	31st March 2021	31st March 2022	31st March 2021	31st March 2022	31st March 2021
1	Total income from operations	795.97	403.61	6,814.95	4,371.59	1,197.54	688.58	9,307.38	6,512.43
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	737.00	360.99	7,016.34	3,516.43	754.22	622.69	8,035.75	4,608.27
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	737.00	360.99	7,016.34	3,516.43	753.82	626.27	7,986.87	4,758.86
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	510.84	571.48	5,636.11	3,320.97	698.96	775.36	6,586.37	4,314.14
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	41,917.73	63,330.30	2,75,791.94	1,87,594.98	41,265.95	63,089.57	2,83,658.14	1,92,064.28
6	Equity Share Capital	513.62	513.62	513.62	513.62	513.62	513.62	513.62	513.62
7	Other Equity	-	-	7,80,022.38	5,04,230.43	-	-	7,93,401.57	5,10,050.84
8	*Earning Per Share (of Rs 10/- Each) (for continuing and discontinued operations)-								
1.	Basic:	9.95	11.13	109.73	64.66	13.61	15.10	128.24	84.00
2.	Diluted:	9.95	11.13	109.73	64.66	13.61	15.10	128.24	84.00

Notes :-

- The above results have been reviewed by Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective meetings held on 30th May, 2022. The statutory auditors have expressed an unmodified opinion on these financial results.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/annual Financial Results are available on the Company's website (www.nalwasons.com) and websites of Stock Exchanges (www.bseindia.com/www.nseindia.com).

For Nalwa Sons Investments Limited
Rakesh Kumar Garg
Executive Director & C.E.O.
DIN : 00038580

Place : Hisar
Date : 30th May, 2022

YORK EXPORTS LIMITED
REGD. OFFICE: D-6, Diwan Shree Apartments, 30, Ferozeshah Road, NEW DELHI
Website : www.yorkexports.in CIN : L74899DL1983PLC015416

Extract of audited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended 31st March, 2022
(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Standalone				Consolidated					
		Quarter ended		Financial Year ended		Quarter ended		Financial Year ended			
		31.03.2022 (audited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (audited)	31.03.2022 (audited)	31.03.2022 (audited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (audited)	31.03.2022 (audited)		
1	Total Income from Operations	82.89	633.14	34.38	3080.23	2050.03	82.89	633.14	34.38	3080.23	2050.03
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	(27.87)	25.61	(37.12)	91.19	11.22	(27.87)	25.61	(37.12)	91.19	11.22
3	Net Profit/(Loss) for the period (before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(27.87)	25.61	(37.12)	91.19	11.22	(20.63)	32.90	(26.13)	177.56	22.12
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	(26.87)	17.61	(35.12)	74.19	8.22	(19.63)	24.90	(24.13)	160.56	19.12
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(10.34)	17.61	(33.18)	90.72	10.16	(3.10)	24.90	(22.19)	177.09	21.06
6	Equity Share Capital	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28	336.28	
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Earnings Per equity Share (Basic & Diluted) (Face Value of Rs. 10/- per share)	(0.31)	0.53	(0.99)	2.70	0.30	(0.09)	0.74	(0.66)	5.27	0.63

1 The above results are an extract of the detailed format of quarterly / Yearly Financial Results filed with the BSE Ltd. Under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly/Yearly Financial Results are available on the Stock Exchange website at (www.bseindia.com) as well as on the Company's Website at www.yorkexports.in.

2 The Consolidated Financial Results have been prepared in accordance with principles of Indian Accounting Standards (Ind AS) as specified by ICAI and section 133 of the Companies Act, 2013.

3 The financial results for the quarter and year ended March 31, 2022 are in compliance with Indian Accounting Standard (IND AS) notified by the MCA.

For and on behalf of the Board of Directors
For York Exports Ltd
Sd/-
(Aayush Dhanwan)
Whole time Director
DIN: 00277485

Place: Ludhiana
Dated: 30.05.2022

RR Financial Consultants Limited
CIN: L74899DL1986PLC023530
Regd. Off: 412-422, 4th Floor, Indraprastha Building, 21 Barakamba Road, New Delhi-110001
Phone:- 011-23354802 Email id:- cs@rrfcl.com Website:- www.rrfcl.com
Extract of Consolidated audited Financial Results for the last Quarter and Financial year ended on 31st March, 2022
(₹ in lakhs)

Particulars	Consolidated		
	Quarter ended		Year ended
	31.03.2022 (Unaudited)	31.03.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)
Total income from operations (net)	386.20	367.14	1,443.39
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (Exceptional and/or Extraordinary Items)	6.39	7.39	53.27
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	6.39	7.39	53.27
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	5.02	3.48	46.90
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3.36	2.45	41.96
Equity Share Capital	1,106.94	1,106.94	1,106.94
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the unaudited Balance Sheet of the previous year	-	-	3,461.80
Earnings Per Share (face value of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations)	0.03	0.02	0.38
Diluted	0.03	0.02	0.38

Key Standalone audited Financial information for the last Quarter and Financial year ended on 31st March, 2022
(₹ in lakhs)

Particulars	Standalone		
	Quarter ended		Year ended
	31.03.2022 (Unaudited)	31.03.2021 (Unaudited)	31.03.2022 (Audited)
Total income from operations (net)	25.08	18.06	77.88
Profit before tax	1.67	(6.74)	2.31
Profit after tax	(0.38)	(8.24)	0.17

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarter/ year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of standalone/consolidated financial results along with notes are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and on Company's website www.rrfcl.com
- The above results have been prepared in compliance with recognition and measurement principles of companies (Indian accounting standards) rules, 2015 (IND AS), as amended by the companies (Indian accounting standards) (amended rules), 2016 prescribed under section 133 of company act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

For and on behalf of the Board of R R Financial Consultants Limited
Sd/-
Rajat Prasad
Managing Director
DIN: 00062612

Date: 30th May, 2022
Place: New Delhi

NOIDA TOLL BRIDGE COMPANY LIMITED
Regd. Office : Toll Plaza, Mayur Vihar Link Road, New Delhi – 110 091
Tel: 0120-2516495 Fax : 0120-2516440
CIN Number: L45101DL1996PLC315772 Website: www.ntbcl.com Email : ntbcl@ntbcl.com

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022
(Rs. in Lacs)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED					
		Quarter ended		Year ended	Year ended	Quarter ended		Year ended	Year ended		
		31.03.2022 (Audited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2022 (Audited)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Total Income from Operations	656.71	233.70	647.73	1,722.59	1,358.74	650.82	239.80	649.24	1,723.19	1,362.01
II	Profit/(Loss) for the period before taxation	(950.71)	(1,218.29)	(793.13)	(4,146.59)	(4,045.60)	(963.32)	(1,200.19)	(780.13)	(4,114.91)	(3,995.49)
III	Net Profit/(Loss) from Continuing operations	(950.71)	(1,218.29)	(793.13)	(4,146.59)	(4,045.60)	(963.32)	(1,200.19)	(780.13)	(4,114.91)	(3,995.49)
IV	Total Other Comprehensive Income for the period	(3.68)	0.60	(1.54)	(1.88)	(0.28)	(3.77)	0.74	(0.89)	(1.55)	(0.88)
V	Total Comprehensive Income for the period	(954.39)	(1,217.69)	(794.67)	(4,148.47)	(4,045.88)	(967.09)	(1,199.45)	(781.02)	(4,116.46)	(3,996.37)
VI	Paid-up equity share capital (Face Value Rs 10)	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50
VII	Reserve (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	N/A	N/A	N/A	8,529.48	12,677.95	N/A	N/A	N/A	8,517.30	12,649.45
VIII	Earning Per Share										
Basic		(0.51)	(0.65)	(0.43)	(2.23)	(2.17)	(0.52)	(0.64)	(0.42)	(2.21)	(2.15)
Diluted											

Notes to Financial Results

- The above results have been subjected to an audit by the statutory auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 30, 2022.
- The Hon'ble High Court of Allahabad, has vide its judgement dated October 26, 2016, on a Public Interest Litigation filed in 2012 (challenging the validity of the Concession Agreement and seeking the Concession Agreement to be quashed), directed the Company to stop collecting the user fee, holding the two specific provisions relating to levy and collection of fee to be inoperative, but refused to quash the Concession Agreement. Subsequently, collection of user fee from the users of the NOIDA bridge has been suspended from October 26, 2016, against which the Company has filed a Special Leave Petition (SLP) before the Hon'ble Supreme Court of India, seeking an interim stay on the said judgement.
- On November 11, 2016, the Hon'ble Supreme Court issued an Interim Order denying the interim stay and sought assistance of the CAG to verify whether the 'Total Cost' of the Project in terms of the Concession Agreement has been recovered or not by the Company. CAG has submitted its report to the Hon'ble Supreme Court and the bench has directed on September 14, 2018, that the report submitted by the CAG be kept in a sealed cover.
- The Special Leave Petition (SLP) is still pending for final adjudication in the Hon'ble Supreme Court. The Company has also notified NOIDA that the Judgement of the Hon'ble Allahabad High Court, read with the Interim Order of the Hon'ble Supreme Court of India constitutes a 'change in law' under the Concession Agreement and submitted a detailed proposal for modification of the Concession Agreement, so as to place the Company in substantially the same legal, commercial and economic position as it was prior to the said change in law. Since NOIDA did not act on the proposal, the Company had sent a notice of arbitration to NOIDA.
- The Arbitral Tribunal has been constituted and both the Company and NOIDA have submitted their claims and counter claims. Further, NOIDA had filed an application under Section 16 of the Arbitration and Conciliation Act, 1961, on the maintainability of the arbitration proceedings, which was rejected by the Arbitral Tribunal vide Order dated August 10, 2018. NOIDA had filed an application in the Delhi High Court, under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1961, challenging the Arbitral Tribunal Order dated August 10, 2018, which has been disposed off by the Delhi High Court on January 31, 2019, without any relief to NOIDA.
- NOIDA has also filed an application for directions before the Hon'ble Supreme Court, seeking a stay on arbitral proceedings. On April 12, 2019, the Hon'ble Supreme Court directed a stay on the Arbitral proceedings.
- On January 31, 2020, the Company filed an application for vacation of the interim stay, granted vide Order dated April 12, 2019. In view of the outbreak of COVID-19, the functioning of the Supreme Court was limited to urgent matters only. Pursuant to the filling of letter of urgency, the matter was heard by the Hon'ble Supreme Court on September 21, 2020, October 5, 2020, November 18, 2020, January 20, 2021, March 16, 2021, April 15, 2021, July 26, 2021, August 10, 2021, September 8, 2021, October 26, 2021, November 9, 2021, December 1, 2021, December 7, 2021, December 9, 2021, December 15, 2021, January 6, 2022, January 10, 2022, January 19, 2022, March 29, 2022 and May 10, 2022, and has now been posted for hearing on August 23, 2022.
- Based on a legal opinion and reliance placed by the Board of Directors on the provisions of the Concession Agreement (relating to compensation and other recourses), the Company is confident that the underlying values of the intangible and other assets are not impaired.
- The Company continues to fulfill its obligations as per the Concession Agreement, including maintenance of Project Assets.
- On September 20, 2021, the Company has received an assessment order from the Income Tax Department u/s 143(3) r.w.s. 144B of the Income Tax Act, 1961, for Assessment Year 2018-19, wherein a demand of Rs. 46.23 crores has been raised, primarily on account of valuation of land, by treating land as a revenue subsidy.
- The Company has on September 30, 2021, requested the Assessing Officer of Income Tax to keep the penalty proceedings in abeyance and has filed an appeal on October 19, 2021, with the Commissioner of Income Tax (Appeals) and National Faceless Appeal Centre (NFAC), against the aforesaid assessment order.
- During December 2019, the Company had received an assessment order from the Income Tax Department u/s 143(3) of the Income Tax Act, 1961, for Assessment Years 2016-17 and 2017-18, wherein a demand of Rs. 357 crores and Rs. 383.48 crores respectively was raised, based on the historical dispute with the Tax Department, which is primarily on account of addition of arrears of designated returns to be recovered in future, valuation of land and other recoveries. The Company has filed an appeal with the first level Appellate Authority. With the transition to Faceless Appeals, as introduced vide Faceless Appeal Scheme, 2020, both the appeals have been transferred to the NFAC.
- The Company has also received a Show Cause Notice, dated May 15, 2021, u/s 270A from the NFAC for Assessment Years 2016-17 and 2017-18. However, the Company has requested that the penalty proceedings be kept in abeyance as the appeals on merits are currently pending before the Commissioner of Income Tax (Appeals).
- The Income Tax Department has, in earlier years, raised a demand of Rs. 1,340.03 crores, which was primarily on account of addition of arrears of designated returns to be recovered in future from toll and revenue subsidy on account of allotment of land. Pursuant to the receipt of order from CIT(A) on April 25, 2018, the Company has received a notice of demand from the Assessing Officer, Income Tax Department, New Delhi, in respect of Assessment Years 2006-07 to 2014-15, giving effect to the said order from CIT(A), whereby an additional tax demand of Rs. 10,893.30 crores was raised. The enhancement of the demand was primarily on account of valuation of land. The Company has filed an appeal along with the stay application with Income Tax App

RattanIndia Enterprises Limited
(formerly RattanIndia Infrastructure Limited)

Extract from the Audited Consolidated Financial Results for the Quarter and Year Ended 31 March 2022

(Rs. Lakh)

Sr. No	Particulars	Quarter ended			Year ended	
		31.03.2022 (Audited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2021 (Audited)
1	Total income from operations	1,179.00	66.69	10.00	1,399.26	10.00
2	Net profit/ (loss) for the period (before tax and exceptional items)	56,488.70	(556.62)	(26.34)	55,406.66	0.70
3	Net profit/ (loss) for the period before tax (after exceptional items)	56,488.70	(556.62)	(26.34)	55,406.66	0.70
4	Net profit/ (loss) for the period after tax (after exceptional items)	56,468.37	(551.62)	(22.25)	55,386.33	0.70
5	Total comprehensive income/ (loss) for the period [Comprising income/ (loss) for the period after tax and other comprehensive income (net of tax)]	56,466.50	(551.62)	(27.61)	55,371.75	(4.66)
6	Paid-up equity share capital (face value of Rs. 2 per equity share)	27,645.39	27,645.39	27,645.39	27,645.39	27,645.39
7	Other Equity as shown in the audited balance sheet				42,234.36	(19,189.25)
8	Earnings per share (EPS) (face value of Rs. 2 per equity share)					
	- Basic (Rs.)	4.085*	(0.040)*	(0.002)*	4.007	0.000
	- Diluted (Rs.)	4.085*	(0.040)*	(0.002)*	4.007	0.000
	*(EPS for the quarters are not annualised)					

Notes:

(a) Additional information on standalone financial results is as follows:

(Rs. Lakh)

Sr. No	Particulars	Quarter ended			Year ended	
		31.03.2022 (Audited)	31.12.2021 (Unaudited)	31.03.2021 (Audited)	31.03.2022 (Audited)	31.03.2021 (Audited)
1	Total income from operations	60.00	50.00	10.00	260.00	10.00
2	Net profit/ (loss) for the period (before tax and exceptional items)	4,404.67	(94.62)	(26.22)	4,312.45	0.82
3	Net profit/ (loss) for the period after tax (after exceptional items)	4,384.34	(89.62)	(22.13)	4,292.12	0.82
4	Total comprehensive income for the period [Comprising profit for the period after tax and other comprehensive income (net of tax)]	4,382.01	(89.62)	(27.49)	4,281.25	(4.54)

(b) The above is an extract of the detailed format of audited financial results for the quarter and year ended 31 March 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited financial results are available on the company's website <https://www.rtn.in> and on the Stock Exchanges website at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Registered Office : 5th Floor, Tower-B, Worldmark 1, Aerocity - New Delhi- 110037
CIN: L74110DL2010PLC210263

On behalf of the Board of Directors
For RattanIndia Enterprises Limited

Place: New Delhi
Date : 30 May 2022

Rajesh Kumar
Director

Dhani Loans and Services Limited

(Formerly known as Indiabulls Consumer Finance Limited)

(CIN: U74899DL1994PLC062407)

Extract of Audited Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31st March 2022

[Regulation 52 (8), read with Regulation 52 (4), of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations)]

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended	Year ended	Year ended	Quarter ended
		31.03.22 (Unaudited)	31.03.22 (Audited)	31.03.21 (Audited)	31.03.21 (Unaudited)
1.	Total Income from Operations	27,021.64	104,750.44	117,669.40	17,998.28
2.	Net profit/(loss) for the period (before tax and exceptional items)	2,425.05	(30,177.62)	(12,489.32)	(17,291.62)
3.	Net profit/(loss) for the period before tax (after exceptional items)	2,425.05	(30,177.62)	(12,489.32)	(17,291.62)
4.	Net profit/(loss) for the period after tax (after exceptional items)	1,189.11	(23,564.23)	(11,582.43)	(14,014.32)
5.	Total Comprehensive Income for the period/year	1,293.40	(23,966.13)	(11,394.74)	(13,831.89)
6.	Paid-up equity share capital	6,118.80	6,118.80	6,118.80	6,118.80
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve)		376,128.54	396,675.03	
8.	Securities Premium Account		370,534.35	370,534.35	
9.	Net Worth		382,247.34	402,793.83	
10.	Paid-up debt capital / outstanding debt		54,506.34	77,060.33	
11.	Outstanding Redeemable Preference Shares				
12.	Debt Equity Ratio		0.52	0.86	
13.	Earnings per share (of ₹ 10 each) (EPS for the quarter is not annualised)*				
	-Basic (Amount in ₹)	2.20*	(38.27)	(18.24)	(22.41)*
	-Diluted (Amount in ₹)	1.95*	(38.27)	(18.24)	(22.41)*
14.	Capital Redemption Reserve		900.82	100.00	
15.	Debenture Redemption Reserve				
16.	Debt Service Coverage Ratio	Not Applicable, being an NBFC			
17.	Interest Service Coverage Ratio	Not Applicable, being an NBFC			

Notes to the Financial Results:

- The above consolidated financial results of Dhani Loans and Services Limited (formerly known as Indiabulls Consumer Finance Limited) ('DLSL', 'the Company' and 'the Holding company') for the quarter and year ended 31st March 2022 have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved at the meeting of the Board of Directors held on 30th May 2022.
- These audited financial results of the Company for the quarter and year ended 31st March 2022 has been prepared in accordance with the requirement of Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations) as amended from time to time.
- The above is an extract of the detailed format of quarter ended and annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations). The full format of the quarter ended and annual financial results are available on the Company's website (<https://www.dhaniloansandservices.com>) and on the websites of the Stock Exchange(s) (BSE - <http://www.bseindia.com> and NSE- <http://www.nseindia.com>)
- Figures for the prior year/period have been regrouped and / or reclassified wherever considered necessary.

Extract of Audited Standalone Financial Results for the quarter and year ended 31st March 2022

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended	Year ended	Year ended	Quarter ended
		31.03.22 (Unaudited)	31.03.22 (Audited)	31.03.21 (Audited)	31.03.21 (Unaudited)
1.	Total Income	23,863.21	84,410.88	106,286.76	14,437.18
2.	Net profit/(loss) for the period before tax	2,489.77	(24,857.79)	(6,980.03)	(14,437.40)
3.	Net profit/(loss) for the period after tax	2,016.19	(18,427.65)	(5,409.77)	(10,818.70)

Notes to the Financial Results:

- The above standalone financial results of Dhani Loans and Services Limited (formerly known as Indiabulls Consumer Finance Limited) ('DLSL', 'the Company') for the quarter and year ended 31st March 2022 have been reviewed by the Audit Committee and subsequently approved at the meeting of the Board of Directors held on 30th May 2022.
- These audited financial results of the Company for the quarter and year ended 31st March 2022 has been prepared in accordance with the requirement of Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations) as amended from time to time.
- The above is an extract of the detailed format of quarter ended and annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations). The full format of the quarter ended and annual financial results are available on the Company's website (<https://www.dhaniloansandservices.com>) and on the websites of the Stock Exchange(s) (BSE - <http://www.bseindia.com> and NSE- <http://www.nseindia.com>)
- Figures for the prior year/period have been regrouped and / or reclassified wherever considered necessary.

Registered Office: 1/1 E, First Floor, East Patel Nagar, New Delhi -110 008
(CIN: U74899DL1994PLC062407)

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Mumbai
Date : 30th May 2022

Pinank Shah
CEO & Whole Time Director

Dhani Services Limited

(Formerly known as Indiabulls Ventures Limited)

Extract of Audited Consolidated Financial Results for the quarter and year ended 31 March 2022 (₹ in Crores)

Sr No.	Particulars	Quarter ended	Year ended	Year ended	Quarter ended
		31.03.22 (refer note 3)	31.03.22 (Audited)	31.03.21 (Audited)	31.03.21 (refer note 3)
1.	Total income from operations (net)	305.46	1,434.44	1,311.02	239.43
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(231.58)	(900.85)	(208.71)	(191.05)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(231.58)	(900.85)	(208.71)	(191.05)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(244.39)	(860.37)	(229.77)	(164.30)
5.	Total comprehensive income for the year	(236.64)	(855.24)	(226.74)	(163.08)
6.	Paid-up equity share capital (Face Value of Rs. 2/- per Equity Share)		121.19	114.54	
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as per Audited Balance Sheet		4,941.99	5,067.75	
8.	Earnings per Share (EPS) (Face Value of ₹ 2/- per Equity Share) *(EPS for the quarters not annualised)				
	-Basic (Amount in ₹)	(4.20)*	(15.30)	(4.16)	(2.97)*
	-Diluted (Amount in ₹)	(4.20)*	(15.30)	(4.16)	(2.97)*

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Company's website (<http://www.dhani.com>) and on the website of BSE (<http://www.bseindia.com>) and NSE (<http://www.nseindia.com>).

Notes to the Financial Results:

- The above results have been reviewed by the audit committee and subsequently approved at the meeting of the Board of Directors held on 30 May 2022.

2. Key Standalone Financial Information:

(₹ in Crores)

Particulars	Quarter ended	Year ended	Year ended	Quarter ended
	31.03.22 (refer note 3)	31.03.22 (Audited)	31.03.21 (Audited)	31.03.21 (refer note 3)
Total Income	13.40	46.86	35.39	14.40
Profit / (Loss) before Tax	(13.84)	(17.72)	(7.84)	(1.49)
Profit / (Loss) for the year	(13.49)	(24.71)	(16.75)	(4.48)

- The figures for the quarter ended 31 March 2022 and 31 March 2021 represent balancing figures between the audited figures for the full financial year and published reviewed year to the date figures upto third quarter of the respective financial years.

Registered Office: 1/1 E, First Floor, East Patel Nagar, New Delhi - 110 008.

CIN: L74110DL1995PLC069631

For and on behalf of the Board of Directors

Place : Mumbai

Date : 30 May 2022

Divyesh B. Shah

Whole-time Director & COO

NOIDA TOLL BRIDGE COMPANY LIMITED

Regd. Office : Toll Plaza, Mayur Vihar Link Road, New Delhi – 110 091

Tel: 0120-2516495 Fax : 0120-2516440

CIN Number: L45101DL1996PLC315772 Website: www.ntbcl.com Email : ntbcl@ntbcl.com

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2022

(Rs. in Lacs)

Sl. No.	Particulars	STANDALONE					CONSOLIDATED				
		Quarter ended		Year ended	Year ended	31.03.2022	Quarter ended		Year ended	Year ended	
		31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022		31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	
		Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited	Audited	Unaudited	Audited	Audited	Audited
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Total Income from Operations	656.71	233.70	647.73	1,722.59	1,358.74	650.82	239.80	649.24	1,723.19	1,362.01
II	Profit/(Loss) for the period before taxation	(950.71)	(1,218.29)	(793.13)	(4,146.59)	(4,045.60)	(963.32)	(1,200.19)	(780.13)	(4,114.91)	(3,995.49)
III	Net Profit/(Loss) from Continuing operations	(950.71)	(1,218.29)	(793.13)	(4,146.59)	(4,045.60)	(963.32)	(1,200.19)	(780.13)	(4,114.91)	(3,995.49)
IV	Total Other Comprehensive Income for the period	(3.68)	0.60	(1.54)	(1.88)	(0.28)	(3.77)	0.74	(0.89)	(1.55)	(0.88)
V	Total Comprehensive Income for the period	(954.39)	(1,217.69)	(794.67)	(4,148.47)	(4,045.88)	(967.09)	(1,199.45)	(781.02)	(4,116.46)	(3,996.37)
VI	Paid-up equity share capital (Face Value Rs 10)	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50
VII	Reserve (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	N/A	N/A	N/A	8,529.48	12,677.95	N/A	N/A	N/A	8,517.30	12,649.45
VIII	Earning Per Share										
	Basic	(0.51)	(0.65)	(0.43)	(2.23)	(2.17)	(0.52)	(0.64)	(0.42)	(2.21)	(2.15)
	Diluted										

Notes to Financial Results


- The above results have been subjected to an audit by the statutory auditors of the Company, reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on May 30, 2022.
- The Hon'ble High Court of Allahabad has, vide its judgement dated October 26, 2016, on a Public Interest Litigation filed in 2012 (challenging the validity of the Concession Agreement and seeking the Concession Agreement to be quashed), directed the Company to stop collecting the user fee, holding the two specific provisions relating to levy and collection of fee to be inoperative, but refused to quash the Concession Agreement. Consequently, collection of user fee from the users of the NOIDA bridge has been suspended from October 26, 2016, against which the Company has filed a Special Leave Petition (SLP) before the Hon'ble Supreme Court of India, seeking an interim stay on the said judgement. On November 11, 2016, the Hon'ble Supreme Court issued an Interim Order denying the interim stay and sought assistance of the CAG to verify whether the 'Total Cost' of the Project in terms of the Concession Agreement has been recovered or not by the Company. CAG has submitted its report to the Hon'ble Supreme Court and the bench has directed on September 14, 2018, that the report submitted by the CAG be kept in a sealed cover. The Special Leave Petition (SLP) is still pending for final adjudication in the Hon'ble Supreme Court. The Company has also notified NOIDA that the Judgement of the Hon'ble Allahabad High Court, read with the Interim Order of the Hon'ble Supreme Court of India constitutes a 'change in law' under the Concession Agreement and submitted a detailed proposal for modification of the Concession Agreement, so as to place the Company in substantially the same legal, commercial and economic position as it was prior to the said change in law. Since NOIDA did not act on the proposal, the Company had sent a notice of arbitration to NOIDA. The Arbitral Tribunal has been constituted and both the Company and NOIDA have submitted their claims and counter claims. Further, NOIDA had filed an application under Section 16 of the Arbitration and Conciliation Act, 1961, on the maintainability of the arbitration proceedings, which was rejected by the Arbitral Tribunal vide Order dated August 10, 2018. NOIDA had filed an application in the Delhi High Court, under Section 34 of the Arbitration and Conciliation Act, 1961, challenging the Arbitral Tribunal Order dated August 10, 2018, which has been disposed off by the Delhi High Court on January 31, 2019, without any relief to NOIDA. NOIDA has also filed an application for directions before the Hon'ble Supreme Court, seeking a stay on arbitral proceedings. On April 12, 2019, the Hon'ble Supreme Court directed a stay on the Arbitral proceedings. On January 31, 2020, the Company filed an application for vacation of the interim stay, granted vide Order dated April 12, 2019. In view of the outbreak of COVID-19, the functioning of the Supreme Court was limited to urgent matters only. Pursuant to the filling of letter of urgency, the matter was heard by the Hon'ble Supreme Court on September 21, 2020, October 5, 2020, November 18, 2020, January 20, 2021, March 16, 2021, April 15, 2021, July 26, 2021, August 10, 2021, September 8, 2021, October 26, 2021, November 9, 2021 December 1, 2021, December 7, 2021, December 9, 2021, December 15, 2021, January 6, 2022, January 10, 2022, January 19, 2022, March 29, 2022 and May 10, 2022, and has now been posted for hearing on August 23, 2022. Based on a legal opinion and reliance placed by the Board of Directors on the provisions of the Concession Agreement (relating to compensation and other recourses), the Company is confident that the underlying values of the intangible and other assets are not impaired. The Company continues to fulfil its obligations as per the Concession Agreement, including maintenance of Project Assets.
- On September 20, 2021, the Company has received an assessment order from the Income Tax Department u/s 143(3) r.w.s. 144B of the Income Tax Act, 1961, for Assessment Year 2018-19, wherein a demand of Rs. 46.23 crores has been raised, primarily on account of valuation of land, by treating land as a revenue subsidy. The Company has on September 30, 2021, requested the Assessing Officer of Income Tax to keep the penalty proceedings in abeyance and has filed an appeal on October 19, 2021, with the Commissioner of Income Tax (Appeals) and National Faceless Appeal Centre (NFAC), against the aforesaid assessment order. During December 2019, the Company had received an assessment order from the Income Tax Department u/s 143(3) of the Income Tax Act, 1961, for Assessment Years 2016-17 and 2017-18, wherein a demand of Rs. 357 crores and Rs. 383.48 crores respectively was raised, based on the historical dispute with the Tax Department, which is primarily on account of addition of arrears of designated returns to be recovered in future, valuation of land and other recoveries. The Company has filed an appeal with the first level Appellate Authority. With the transition to Faceless Appeals, as introduced vide Faceless Appeal Scheme, 2020, both the appeals have been transferred to the NFAC. The Company has also received a Show Cause Notice, dated May 15, 2021, u/s 270A from the NFAC for Assessment Years 2016-17 and 2017-18. However, the Company has requested that the penalty proceedings be kept in abeyance as the appeals on merits are currently pending before the Commissioner of Income Tax (Appeals). The Income Tax Department has, in earlier years, raised a demand of Rs. 1,340.03 crores, which was primarily on account of addition of arrears of designated returns to be recovered in future from toll and revenue subsidy on account of allotment of land. Pursuant to the receipt of order from CIT(A) on April 25, 2018, the Company has received a notice of demand from the Assessing Officer, Income Tax Department, New Delhi, in respect of Assessment Years 2006-07 to 2014-15, giving effect to the said order from CIT(A), whereby an additional tax demand of Rs. 10,893.30 crores was raised. The enhancement of the demand was primarily on account of valuation of land. The Company has filed an appeal along with the stay application with Income Tax Appellate Tribunal (ITAT). The matter was heard by ITAT on December 19, 2018, January 2, 2019 and February 6, 2019 and based on NCLAT Order dated October 15, 2018, ITAT adjudged the matter sine die, with directions to maintain status quo. Further, in November 2018, the CIT(A), Noida, passed a penalty order for Assessment Years 2006-07 to 2014-15, based on which the Assessing Officer Delhi, imposed a penalty amounting to Rs. 10,893.30 crores in December 2018. The Company has filed an appeal, along with a stay application with the Income Tax Appellate Tribunal (ITAT). The matter was heard by the ITAT on March 29, 2019 and May 3, 2019, which has adjudged the matter sine die, with directions to maintain status quo. On April 21, 2022, the Company has filed an application for early hearing of the appeals pending before the Hon'ble ITAT in respect of AY 2006-07 to 2014-15 and subsequently the matter was heard by ITAT on May 6, 2022 and now the appeals along with the stay application will be heard by ITAT on July 21, 2022.
- In terms of an affidavit filed by the Ministry of Corporate Affairs with the Hon'ble National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) on May 21, 2019, the cut-off date of October 15, 2018 ("Cut-off date") was proposed. The Hon'ble NCLAT vide its Order dated March 12, 2020, has approved the revised Resolution Framework submitted by the New Board, along with its amendments. In the said Order, Hon'ble NCLAT has also approved October 15, 2018, as the Cut Off date for initiation of resolution process for IL&FS and its group companies, including the Company. Accordingly, the Company has not provided for any interest on all its loans and borrowings with effect from October 15, 2018 ("Cut-off date").
- The re-opening of the books of account, investigations by Serious Fraud Investigation Office ("SFO") and other regulatory agencies and forensic examination by Grant Thornton India LLP, which is under process for certain group entities does not have any impact on the financial statements/operations of the Company.
- The Company, on October 4, 2021, received a final Notice of Demand dated September 30, 2021, from NOIDA, wherein NOIDA raised an alleged demand of Rs. 26.05 crores calling upon the Company to pay the amount within three days of receipt thereof, failing which NOIDA threatened to remove all advertisement displays on the NOIDA side of the DND Flyway. On receipt of the said Notice, the Company filed an interim application on October 4, 2021, before the Hon'ble Supreme Court. Based on the Letter of Urgency/ Mentioning filed by the Company, the matter was listed for hearing on October 26, 2021. In spite of the Company informing all the developments at the Hon'ble Supreme Court to NOIDA, the NOIDA authorities, unlawfully removed all the advertisement display from NOIDA side of the DND Fly



केन्द्रीय विद्यालय
सेक्टर - 4, आर.के. पुरम, नई दिल्ली - 110022


प्रवेश सूचना
 केंद्रीय विद्यालय से-4 आर के पुरम में सत्र 2022-23 के लिए कक्षा एक में अनुसूचित जनजाति, विद्यार्थी तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नोन क्रीमी लेयर) में प्रवेश हेतु कुछ स्थान रिक्त है। इच्छुक उम्मीदवार जिनकी आयु **31.03.2022 तक 6 से 8 साल** के बीच हो विद्यालय में दिनांक **31.03.2022 से 10.06.2022** (प्रातः 10 से दोपहर 01 बजे) तक पंजीकरण करवा सकते हैं।

प्राचार्य



इयूटयच बक एंडर शुद्धिपत्र
 त्रयधोरक सनाला एजराप्रइअज के संदर्भ में 28.5.2022 की इस समाचार पत्र में प्रकाशित कच्चा सुचना में सम्पत्ति सं. 1 का क्षेत्रफल माप गलती से 160 वर्ग यार्ड्स की जगह 60 वर्ग यार्ड्स प्रकाशित हो गया है। कृपया उसके सही एरिया माप 160 वर्ग यार्ड्स पढ़ें। अन्य सभी विवरण-वस्तु पुरसव रहेंगे।

विद्याल चरण
प्राधिनत अधिकारी
इयूटयच बैक ए.जी.



रेलटेल
 (भारत सरकार का एक उपक्रम)
 लिफाफा सं. L84202DL2006G0107905

नोटिफा सं.- आरसीआइएन पृष्ठ 2022-23-13719-1384 दिनांक- 27.05.2022
 भूदान / पूर्वी क्षेत्र द्वारा 'रेलवेज कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.' पूर्वी क्षेत्र के लिए चंडीगढ़ राज्य के विभिन्न स्थानों में OSWAN अल्लुवेयशन के संबंध में 3 वर्ष की अवधि के लिए ILL कंविटिडिटी 30 DMQs एवं 314 BMQs की इंडीग्रीड के लिए डाक बांधकर किराये पर लेने के कार्य हेतु पात्र कंीयकारों से ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।
 निविदा सूचना/ ऑफर निविदा पररादा ज. www.railtelindia.com और <https://www.meps.gov.in> पर उपलब्ध है। सभी मांगी परीक्षित / शुद्धिपत्र केंबल स्टैण्डेड की वेबसाइट और आईआईटीएस पोर्टल पर उपलब्ध किये जाएंगे।

एमजेंट इंस्टिट्यूल सॉल्यूशंस लिमिटेड												
(पूर्व में एमजेंट नॉबिल एजुकेशन एंड सोल्वेज लिमिटेड)												
सीआईएन- L80902DL1983PLC209722												
पंजीकृत कार्यालय: 8-बी, 'सागर' 6. लिंक मगरा, नई दिल्ली - 110,001												
फोन: (91) (11) 23782022, 23382592, फैक्स: (91) (11) 23782806, 23381914, ईमेल: cs@omanigroup.com , वेबसाइट: www.eesl.in												
31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए एकमेव और संश्लिक्त लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश												
(लेयरों और इंगीएस की संख्या को छोड़कर लाभ में)												
विवरण	स्टैंडअलोन						संश्लिक्त					
	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	
	31 मार्च 2022	31 दिस. 2021	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022	31 दिस. 2021	31 मार्च 2022	31 दिस. 2021	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
	अंशकक्षित	अलेखापरीक्षित	अंशकक्षित	अंशकक्षित	अंशकक्षित	अलेखापरीक्षित	अंशकक्षित	अंशकक्षित	अंशकक्षित	अंशकक्षित	अंशकक्षित	अंशकक्षित
1 कुल राजस्व	3430.68	344.66	11791.26	10810.56	51916.48	3427.39	341.29	11788.12	10797.19	51903.84		
2 अविधि के लिए लाभ/हानि (कर पूर्व, असाधारण और/या असाधारण मदे)	16.93	1.44	58.96	199.10	576.97	13.49	(2.05)	55.45	185.09	563.41		
3 कर पूर्व अविधि के लिए लाभ/हानि (असाधारण और/या असाधारण मदी के बाद)	16.93	1.44	58.96	199.10	576.97	13.49	(2.05)	55.45	185.09	563.41		
4 कर के बाद की अविधि के लिए लाभ (+)/हानि (-) (असाधारण और/या असाधारण मदी के बाद)	9.90	1.32	39.99	147.59	429.33	6.83	(1.61)	37.24	135.63	417.99		
5 अविधि के लिए कुल व्यापक आय/लाभ/ (हानि) अविधि के लिए (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)	8.15	1.32	43.53	145.84	431.92	5.08	(1.61)	40.78	133.88	420.58		
6 प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंशित मूल्य रु.10/- प्रति शेयर)	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90	456.90		
7 पिछले लेखा वर्ष की बैलेंस शीट के अनुसार पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर अन्य इक्विटी	-	-	-	-	1769.44	1623.60	-	-	1629.71	1495.82		
8 प्रति शेयर आय (असाधारण मदी से पहले) (वार्षिक नहीं)	0.22	0.33	0.88	3.23	9.40	0.15	(0.04)	0.82	2.97	9.15		
(ए) मूल	0.22	0.33	0.88	3.23	9.40	0.15	(0.04)	0.82	2.97	9.15		
(बी) डिज्यूटेड												
9 प्रति शेयर आय (असाधारण मदी के बाद) (वार्षिक नहीं)	0.22	0.03	0.88	3.23	9.40	0.15	(0.04)	0.82	2.97	9.15		
(ए) मूल	0.22	0.03	0.88	3.23	9.40	0.15	(0.04)	0.82	2.97	9.15		
(बी) डिज्यूटेड												

टिप्पणी: उपरोक्त सभी (सूचीकरण और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज के साथ दायर किए गए 31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही और वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्राप्प का एक सारांश है। एकमेव और संश्लिक्त लेखा परीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्राप्प स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.eesl.in पर उपलब्ध हैं।

	बोर्ड के अध्यक्ष/प्राप
	कृते एमजेंट इंस्टिट्यूल सॉल्यूशंस लिमिटेड
	हस्ता/-
	आर सी चंडूरी
	(निदेशक)
	डीआईएन : 03048392

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 30.05.2022

नोएडा टोल ब्रिज कंपनी लिमिटेड
पंजी. कार्या: टोल प्लाजा, मयूर विहार लिंक रोड, नई दिल्ली-110091
टेली.: 0120-2516495, फैक्स: 0120-2516440
CIN.No: L45101DL1996PLC315772; वेबसाइट : www.ntbcl.com ईमेल : ntbcl@ntbcl.com,

31 मार्च, 2022 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष का अंशकक्षित वित्तीय परिणाम												
(रु. लाख में)												
विवरण	स्टैंडअलोन						संश्लिक्त					
	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष	
	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.12.2021	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021	31.03.2022	31.03.2021
	अंशकक्षित	अंशकक्षित	अंशकक्षित	अंशकक्षित	अंशकक्षित	अंशकक्षित	अंशकक्षित	अंशकक्षित	अंशकक्षित	अंशकक्षित	अंशकक्षित	अंशकक्षित
क्र.सं.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I प्रचालनी से कुल आय			656.71	233.70	647.73	1722.59	1,358.74	650.82	239.80	649.24	1,723.19	1,362.01
II काराधान के पूर्व अविधि हेतु लाभ/(हानि)			(950.71)	(1,218.29)	(793.13)	(4,146.59)	(4,045.60)	(963.32)	(1,200.19)	(780.13)	(4,114.91)	(3,995.49)
III सतत प्रचालनी से निम्नत लाभ/(हानि)			(950.71)	(1,218.29)	(793.13)	(4,146.59)	(4,045.60)	(963.32)	(1,200.19)	(780.13)	(4,114.91)	(3,995.49)
IV अविधि हेतु कुल अन्य व्यापक आय			(3.68)	0.60	(1-34)	(1.88)	(0.28)	(3.77)	0.74	(0.89)	(1-35)	(0.88)
V अविधि हेतु कुल व्यापक आय			(954.39)	(1,217.69)	(794.67)	(4,148.47)	(4,045.88)	(967.09)	(1,199.45)	(781.02)	(4,116.46)	(3,996.37)
VI प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (रु. 10 का अंशित मूल्य)			18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50	18,619.50
VII अश्लिष्टि (सत वर्ष के तुलन पत्र में प्रदर्शित के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षिती को छोड़कर)			अग्रोचय	अग्रोचय	अग्रोचय	8,529.48	12,677.95	अग्रोचय	अग्रोचय	अग्रोचय	8,517.30	12,649.45
VIII आय प्रति शेयर												
वैश्लिक												
इडल्यूटेड			(0.51)	(0.65)	(0.43)	(2.23)	(2.17)	(0.52)	(0.64)	(0.42)	(2.21)	(2.15)

- टिप्पणी: तथा वित्तीय परिणाम :**
- उपरोक्त विवरण कम्पनी के सांख्यिक लेखापरीक्षकों की संमित समीक्षा के अस्थयुक्त हो जिनकी ऑडिट कमीटी द्वारा की गई तथा 30 मई, 2022 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किये गये।
 - माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 26 अक्टूबर 2016 के आदेश फैसले में 2012 में दायर एक जनहित याचिका पर (रियायत समझौते की वैधता को चुनौती देते हुए, रियायत समझौते को रद्द करने की मांग करते हुए) कंपनी को निर्देश दिया था कि शुल्क वसूलने और संग्रह करने से संबंधित दो विषिष्ट प्राधान्यों को निष्क्रिय मानते हुए, उपयोक्ताको शुल्क एकत्र करना बंद करें, लेकिन रियायत समझौते को रद्द करने से इनकार कर दिया। नतीजतन, नोएडा ब्रिज के उपयोक्ताओं से उपयोक्ताओं शुल्क का संग्रह 26 अक्टूबर 2016 से निवृत्तित कर दिया गया है जिसके विरुद्ध भारत के न्यायालय के समक्ष एक स्मेशल लीव पल्टिकेशन (एएलपीए) दायर की गई है जिसमें उक्त फैसले पर अंतिम फैसले लगाने की मांग की गई है।
 - नवंबर, 2016 को अपने अंतिम आदेश में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतिम स्थान से इंकार कर दिया लेकिन, यह पता लगाने के लिये सीएजी की सहमतया मांगी कि क्या रियायत अनुबंध की शर्ती के अनुसार परियोजना की कुल लागत कम्पनी द्वारा वसूल कर सी गयी है या नहीं। सीएजी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिपोर्ट सौंप दिया है। 14 सितम्बर, 2018 को अपनी अंतिम सुनवाई में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि सीएजी द्वारा जमा की गई रिपोर्ट मुहरबंद लिफाफे में रखी जाये।
 - विशेष अनुमत याचिका (एएलपीए) अनी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम निर्णय के लिए लंबित है। कंपनी ने नोएडा को भी अधिसूचित कर दिया है कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंतिम फैसले के साथ पड़ित माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का फैसला रियायत अनुबंध के अंतर्गत 'कानून में परिवर्तन' का गठन कर रहा है तथा रियायत अनुबंध के सुधार के लिये एक विस्तृत प्रस्ताव जमा किया ताकि उसे उसी रूप में विश्लिक, व्यावसायिक तथा आर्थिक हेंरिसयत में स्थायित किया जाये जो कानून के उक्त परिवर्तन से पूर्व में था। चूंकि, नोएडा ने इस प्रस्ताव पर कार्य नहीं किया, कम्पनी ने नोएडा के पास विधान का एक नोटिस जारी थी।
 - विधान अधिकरण का गठन कर लिया गया है तथा दोनों कंपनी एवं नोएडा ने अपने दावे तथा प्रति दावे जमा किये हैं। आगे, नोएडा विधान कार्यवाही की मैन्टेनेन्स प्रार पर धारा 16 के अंतर्गत एक आवेदन दखिल किया है जिसे आदेश तिथि 10 अगस्त, 2018 द्वारा विधान अधिकरण द्वारा निरस्त कर दिया गया।
 - नोएडा ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1961 की धारा 34 का तहत दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया था, जिसमें 10 अगस्त, 2018 के मध्यस्थ न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसे दिल्ली उच्च न्यायालय ने नोएडा को बिना किसी रातन के 31 जनवरी, 2019 को निरुदा दिया था।
 - नोएडा ने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विधान कार्यवाहियों के लिए एक आवेदन दखिल किया है। 12 अंरिल, 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधान कार्यवाहियों पर रटे की निर्देश दी।
 - नोएडा ने अंशकक्षित, कंपनी के 12 अंरिल, 2019 के आदेश के तहत लिए गए अंतिम स्थान को खुली के लिए एक आवेदन दायर किया। कोविड-19 के प्रकोपी को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट का कामकाज केवल आवश्यकस्थ मामलों तक ही सीमित था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 21 सितंबर, 2020, 5 अक्टूबर, 2020, 18 नवंबर, 2020, 20 जनवरी, 2021, 16 मार्च, 2021, 15 अंरिल, 2021, 26 जुलाई, 2021, 10 अगस्त, 2021, 8 अक्टूबर, 2021, 26 अक्टूबर, 2021 और 9 नवंबर, 2021 और 1 दिसंबर, 2021, 9 दिसम्बर, 2021, 15 दिसम्बर, 2022, 10 जनवरी, 2022, 10 जनवरी, 2022, 19 जनवरी, 2022, 29 मार्च, 2022 तथा 10 मई, 2022 के अपवायश्यक पत्र दक्षिण भारत के अंतुरण में कंपनी की सुनवाई की गई और अब मामले को सुनवाई हेतु 23 अगस्त, 2022 को पोस्ट कर दिया गया है।
 - विश्लिक ऑपेनिशन और निदेशक मंडल की निवर्तन के आधार पर, कंसेशन एप्रिडिंट (सतिपूर्ति एवं अन्य रिक्तों से सम्बन्धित) के प्राधान्यों पर, कंपनी को विव्यास है कि अमूर्त और अन्य संर्पातियों के अंतर्निहित मूल्य प्राप्तावत नहीं होने हैं।
 - कम्पनी परिचोजना आतिथियों के रखरखाव सहित कंसेशन एप्रिडेंट के अनुसार अपने दायित्व को पूर्ण करती रहेगी।
 - 20 सितंबर, 2021 को, कंपनी को निर्धारण वर्ष 2018-19 हेतु अपकर अधिनियम, 1961 की धारा 144बी के साथ पड़ित अपकर विभाग से धारा 143(3) के तहत निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें मुख्य रूप से भूमि के मूल्यांकन के कारण, भूमि की राज्य सरकार द्वारा काल 46.23 करोड़ रुपये की मांग की गई है।
 - कंपनी ने 30 सितंबर,2021 को आयकर के निर्धारण अधिकारी से दंड की कार्यवाही को रोकें रखने का अनुरोध किया और 19 अक्टूबर,2021 को आयकर आयुक्त (अपील), राष्ट्रीय फेसलेस अपील केंद्र (एएएलपीए) के पास उक्त निर्धारण आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर की।
 - दिसंबर 2019 के दौरान कंपनी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 143(3) के तहत आयकर विभाग से निर्धारण वर्ष 2016-17 और 2017-18 हेतु निर्धारण आदेश प्राप्त हुआ है, जिसमें क्रमशः 357 करोड़ रुपये और 383.48 करोड़ रुपये की मांग की गई है। कर विभाग के साथ पेशावैश्लिक विवाद पर आधारित है, जो मुख्य रूप से भव्यता में वयलु की जाने वाली निडिंट रिटर्न की वकया राशि, भूमि के मूल्यांकन और आय सुवर्लित्वि के कारण है। कंपनी ने प्रथम स्तर के अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील दायर की है। फेसलेस अपील में संक्रमण के साथ, जैसा कि फेसलेस अपील योजना, 2020 के तहत पेश किया गया था, दोनों अपील को एएएलपीए में स्थानांतरित कर दिया गया है।
 - कंपनी को निच. 2016-17 और निच. 2017-18 के लिए एलएफएससी से एक कारण बताओ नोटिस, दिनांक 15 मई,2021, तथा 270ए के तहत प्राप्त हुआ है। हालांकि, कंपनी ने अनुरोध किया है कि दंड की कार्यवाही को स्थगित रखा जाए क्योंकि योग्यता के आधार पर अपील वर्तमान में अपकर आयुक्त (अपील) के समक्ष लंबित है।
 - आयकर कंसेशन ने पहले के वर्षों में 1,340.03 करोड़ रुपये की मांग की है, जो मुख्य रूप से भूमि के आवंटन के कारण टोल और राज्य सरकार से भवियत में वसूल किए जाने वाले नामित रिटर्न के वकयाय के कारण था। 15 अंरिल, 2018 को सीआईटी (ए) से आदेश प्राप्त होने के अनुरण में, सीआईटी (ए) के उक्त आदेश के अनुसार, जिससे 10,893.30 करोड़ रुपये की अतिरिक्त कर मांग उठाई गई थी, कंपनी को निवारण अधिकारी, आयकर विभाग, नई दिल्ली से निवारण वर्ष 2006-07 से 2014-15 के प्रभाव के संबंध में मांग का नोटिफ प्राप्त हुआ है। मांग में वृद्धि मुख्य रूप से भूमि के मूल्यांकन के कारण हुई। कंपनी ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) के साथ रटे आवेदन के साथ एक अपील दायर की है। आईटीएटी द्वारा 19 दिसंबर, 2018, 2 जनवरी,2019 और 6 फरवरी, 2021 को मामले की सुनवाई की गई। 15 अक्टूबर,2018 के एलएलपीएटी आदेश के आधार पर, आईटीटी ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देशों के साथ मामले को अंशिक्षित काल के लिए स्थगित कर दिया।
 - इसके अलावा, नवंबर 2018 में, सीआईटी (ए), नोएडा ने निर्धारण वर्ष 2006-07 से 2014-15 के लिए एलएल आदेश पारित किया, जिसके आधार पर निर्धारण अधिकारी दिल्ली ने दिसंबर 2018 में 10,893.30 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। कंपनी ने आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीटी) के साथ एक स्थगान आवेदन के साथ एक अपील दायर की। आईटीटी ने मामले को सुनवाई 29 मार्च 2019 और 3 मई 2019 को की थी। आईटीटी ने यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश के साथ मामले को अंशिक्षित काल के लिए स्थगित कर दिया है।
 - 21 अंरिल, 2022 को, कंपनी ने निच. 2006-07 से 2014-15 के संबंध में माननीय आईटीटी के समक्ष लंबित अपीलों की शेष सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया और बाद में आईटीटी द्वारा 6 मई, 2022 मामले की सुनवाई की गई और अब स्थगान आवेदन के साथ अपील पर आईटीटी द्वारा 21 जुलाई, 2022 को सुनवाई की जाएगी।
 - कोरिडोर मोराना वायरस (कोविड-19) महामारी जिसे 11 मार्च, 2020 को विश्वन स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया था, भारत सरकार तथा रा.रा.वे. दिल्ली सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा है। 16 मार्च, 2022 से सतसत वाणिज्यिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए तथा "लॉक-डाउन" एवं कर्फ्यू लगाने और राज्य से बाहर तथा भीतर यात्रा करने तथा कार्यालयों को बन्द करने के लिए विभिन्न उपपद-निर्देश/निर्देश/आदेश जारी कर रही हैं। देश लंबे समय तक रण्ठ्ठी लॉकडाउन से भी गुजरा है जिसने अर्थव्यवस्था को काफी प्रभावित किया है।
 - समय की उम्र संबंधित प्रभावों पर विचार किया है जो वित्तीय और गैर-वित्तीय परिस्परियों की अग्रणीत राशि की वसूली सहित इन लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों को तैयारी में कोविड-19 से संबंधित महामारी से उत्पन्न हो सकते हैं। इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों में संभावित परिवर्न को अंशिक्षता से संबंधित प्राधान्यों को विकसित करने में, कंपनी ने इन परिणामों के अनुमानित को तिथि पर, क्रैडिट रिपोर्ट और संबंधित जानकारी और आर्थिक पुनर्गठन सहित सूचना के अतिरिक्त और बाहरी स्रोतों का उपयोग किया है और उम्मीद है कि इन परिस्परियों की अग्रणीत राशि को वसूली को जाएगी। कंपनी के वित्तीय परिणामों पर कोविड-19 का प्रभाव इन परिणामों के अनुमानित को तिथि के अनुमान से भिन्न हो सकता है।
 - कंपनी के पास एक ही व्यवसाय खंड है तथा इसलिए खंड-वार जानकारी का विवरण लागू नहीं है।
 - उपरोक्त सभी (सूचीकरण तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्राप्प का सार है। तिमाही वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्राप्प कंपनी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा बीएसई लिमिटेड को वेबसाईटों क्रमशः www.ntbcl.com, www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर उपलब्ध है।
 - जो भी जरूरी हुआ, पूर्व अवधि/वर्ष के आंकड़े पुनर्मूलीकृत/ पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं।

स्थान : नोएडा	हस्ता/-
तिथि : 30 मई, 2022	निदेशक

PUBLIC NOTICE

Whereas Dharam Singh, Ravinder Singh, Jitender Singh & Kalyan Singh is in the process of undertaking of development of an Affordable Plotted Colony (DDJAY-2016), over an area measuring 5.0458 acres (after migration from License No. 36 of 2019 dated 1.03.2019 granted for an area measuring 5.0458 acres for setting up of Affordable Group Housing Colony)failing in the revenue estate of Village Wazipur, Sector 95A, Distt. Gurugram, Haryana has been examined /considered by the department under the policy issued vide memo no.PF-27A/2700 dated 08.02.2016.

Whereas a revision of the said layout plan of the said colony to 5.0458 acres is proposed to be effected, wherein Affordable Group Housing component are proposed to be migrated in Affordable Plotted Colony (DDJAY) for better and organized planning of the colony.

And whereas the o/o Director, Town & Country Planning (Haryana), Chandigarh, while granting LOI vide Memo No. LC-3717-B/E (DS)/2022/14693 dated 27.05.2022, has required seeking of any objections/ suggestions regarding the migration of license in the compliance of his office order dated 25.1.2021.

Accordingly, vide this public notice, objections are hereby invited from the general public on the provisional approved layout plan.

Objections, if any, may be filed in the o/o Senior Town Planner, Sector 14, Gurugram, Haryana, or may be filed in our Corporate Office within 30 days of this notice, failing which it shall be assumed that there are no objections to the provisional approved layout plan.